

## ब्रैम्पटन ट्रांज़िट नया PRESTO लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (3 जुलाई, 2020) – सोमवार, 6 जुलाई को, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit) एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर रहा है, जिससे सवारियों को, अपने PRESTO कार्ड से किराए का भुगतान करने के समय, मुफ्त यात्रा के लिए अंक (पॉइंट) कमा पाएंगी।

जब सवारियां अपने PRESTO कार्ड बैलेंस का उपयोग करते समय, सोमवार से रविवार तक की एक-सप्ताह की अवधि में ब्रैम्पटन ट्रांज़िट पर 12 टिप्स के लिए किराए का भुगतान करेंगी, तो उसके बाद की जाने वाली प्रत्येक यात्रा, उसी सप्ताह के दौरान मुफ्त होगी।

लॉयल्टी प्रोग्राम, बिना संपर्क के भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की सवारियों के लिए सफर करने हेतु नया और इनाम प्रदान करने वाला तरीका है। सभी सवारियां मुफ्त यात्रा के लिए अंक कमा सकती हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी क्यों न हो, क्योंकि यह प्रोग्राम सभी किराया श्रेणियों पर लागू होता है। अन्य ट्रांज़िट सेवा प्रदाताओं पर ट्रांसफर और भुगतान किए किराए और छूट वाले गो (GO) के सह-किराया भुगतान, इस प्रोग्राम में नहीं गिने जाते। साप्ताहिक पास अभी भी उपलब्ध हैं।

जो सवारियां अभी भी नकद भुगतान का प्रयोग करती हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर से PRESTO कार्ड प्राप्त करें। केवल सीमित समय के लिए, PRESTO कार्ड की \$6 की फीस से छूट दी जा रही है – एक सवारी को एक कार्ड दिया जाएगा। ट्रिनिटी कॉमन टर्मिनल (Trinity Common Terminal) की बिल्डिंग को छोड़कर, ट्रांज़िट के टर्मिनल्स पर ग्राहक काउंटर खुल गए हैं।

### कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

सिटी का, सवारियों से अनुरोध है कि वे मास्क पहनकर भी, बसों में, टर्मिनल्स पर और बस स्टॉप्स पर लगातार शारीरिक दूरी कायम रखें। सवारियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें। यदि आप बीमार हैं, तो कृपया ट्रांज़िट पर सफर करने से परहेज करें, अपनी निकटतम कोविड-19 (COVID-19) असेसमेंट साइट पर टेस्ट करवाएं और पब्लिक हेल्थ के निर्देशों का पालन करें।

पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह से, सवारियों को याद दिलाया जाता है कि बसों पर और टर्मिनल्स पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) जरूरी हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम



# BRAMPTON

## Service and Information Update

कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)